



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 ज्येष्ठ 1940 (श0)
(सं0 पटना 516) पटना, शुक्रवार, 1 जून 2018

केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, पटना।

अधिसूचना
30 मई 2018

सं0 2/परी0-01(राज0)-11/2017-1300—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1883 दिनांक 10.10.1961 द्वारा गठित केन्द्रीय परीक्षा समिति को सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या-14393 दिनांक 15.11.2017 द्वारा विभिन्न विभागीय परीक्षा आयोजन हेतु दायित्व प्रदान किया गया है। उक्त के आलोक में निर्गत राजस्व पर्षद की अधिसूचना संख्या 2/परी0-01(राज0)-11/2017-2931 दिनांक 01.12.2017 द्वारा केन्द्रीय परीक्षा समिति ने राजपत्रित/अराजपत्रित पदाधिकारियों की विभागीय परीक्षा हेतु नये पाठ्यक्रम एवं नई प्रणाली तय की थी। उक्त अधिसूचना के प्रख्यापित होने के पश्चात् कतिपय अन्य विभागों ने अपनी सेवाओं को भी विभागीय परीक्षा की परिधि में लाने हेतु अनुरोध किया है। उक्त आलोक में निम्नलिखित सेवाएं विभागीय परीक्षा के निमित्त जोड़ी जाती हैं, साथ ही सेवा संवर्ग वार किस सेवा को कितने विषयों में विभागीय परीक्षा देनी है, निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :-

क्रमांक	सेवा संवर्ग	विषय
1.	बिहार खान एवं भूतत्व सेवा	<ol style="list-style-type: none"> हिन्दी लिखित (कोड-01) कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी (कोड-02) सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली (कोड-07) खान एवं भूतत्व सेवा संबंधी विशेष प्रश्न पत्र (कोड-28)
2.	बिहार बाल संरक्षण सेवा (सहायक निदेशक एवं बाल संरक्षण पदाधिकारी)	<ol style="list-style-type: none"> हिन्दी लिखित (कोड-01) कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी (कोड-02) सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली (कोड-07) विकास (कोड-08) बाल संरक्षण संबंधी विशेष प्रश्न पत्र (कोड-29)

क्रमांक	सेवा संवर्ग	विषय
3.	बिहार बाल संरक्षण सेवा (अन्य सभी अराजपत्रित संवर्ग यथा अधीक्षक उपाधीक्षक, लेखापाल-सह-भंडारपाल, गृहपति-सह-लिपिक इत्यादि)	1. हिन्दी लिखित (कोड-01) 2. कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी (कोड-02) 3. लेखा एवं बैंकिंग (कोड-06) 4. सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली (कोड-07) 5. लिपिकों हेतु लेखा संबंधी विशेष प्रश्न पत्र (कोड-21) 6. बाल संरक्षण संबंधी विशेष प्रश्न पत्र (कोड-29)
4.	बिहार सामाजिक सुरक्षा सेवा (सहायक निदेशक)	1. हिन्दी लिखित (कोड-01) 2. कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी (कोड-02) 3. सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली (कोड-07) 4. विकास (कोड-08)
5.	बिहार ईख सेवा	1. हिन्दी लिखित (कोड-01) 2. कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी (कोड-02) 3. बिहार लोकल लॉ (कोड-05) 4. सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली (कोड-07)
6.	बिहार पंचायत सेवा	1. हिन्दी लिखित (कोड-01) 2. कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी (कोड-02) 3. बिहार लोकल लॉ (कोड-05) 4. सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली (कोड-07) 5. विकास (कोड-08)
7.	बिहार आपूर्ति सेवा	1. हिन्दी लिखित (कोड-01) 2. कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी (कोड-02) 3. सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली (कोड-07) 4. आपूर्ति सेवा संबंधी विशेष प्रश्न पत्र (कोड-30)
8.	बिहार परिवहन (प्रवर्तन अवर निरीक्षक) सेवा	1. हिन्दी लिखित (कोड-01) 2. कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी (कोड-02) 3. लेखा एवं बैंकिंग (कोड-06) 4. सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली (कोड-07) 5. लिपिकों हेतु लेखा संबंधी विशेष प्रश्न पत्र (कोड-21)
9.	प्रखंड SC/ST कल्याण पदाधिकारी संवर्ग (अराजपत्रित)	1. हिन्दी लिखित (कोड-01) 2. कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी (कोड-02) 3. सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली (कोड-07) 4. विकास (कोड-08)

2. उक्त आलोक में तीन नये प्रश्न पत्र जोड़े गये हैं, जिनका पाठ्यक्रम निम्न होगा:-

Syllabus for Special Paper for Mines & Geology Service (Code-28)

- i. Mines and Minerals (Development & Regulation), Act, 1957 with up to date amendments.
- ii. Mineral Conservation and Development Rules, 1988 with up to date amendments.
- iii. Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914.
- iv. Minerals (Other than Atomic and Hydrocarbon Energy Minerals) Concession Rules 2016.
- v. Mines Act 1952 with up to date amendments.
- vi. Metalliferous Mines Regulation 1961 with up to date amendments.
- vii. Latest Circulars & notifications of Ministry of Environment, Forest & Climate Change, New Delhi.
- viii. Bihar Minor Mineral Rules, 2017.
- ix. Any other Rules notified by the Department.

Syllabus for Special Paper for Child Welfare Service (Code-29)

बाल संरक्षण एवं समाज कल्याण से संबंधित केंद्र एवं राज्य के विभिन्न अधिनियम/विनियम/आदेश इत्यादि एवं केंद्र एवं राज्य की विभिन्न योजनाएँ यथा – किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 एवं बिहार नियमावली 2010, अनैतिक पणन निवारण अधिनियम, 1956, परवरिश, अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, प्रायोजन एवं देखभाल इत्यादि। POCSO (Protection of Children from sexual offences Act), 2012

Syllabus for Special Paper for Bihar Supply Service (Code-30)

- i. The Essential Commodities Act, 1955.
 - ii. The Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980.
 - iii. Bihar Consumer Protection (Amendment) Rules, 2016.
 - iv. Consumer Protection Act, 1986.
 - v. The National Food Security Act, 2013.
 - vi. Petroleum Act, 1934.
 - vii. Bihar Trade Articles (Licenses Unification) Order, 1984.
 - viii. Petroleum Amendment Rule, 2011 (Modified).
 - ix. Motor Sprit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005.
 - x. Lubricating Oils & Greases (Processing, Supply & Distribution Regulation) Order, 1987.
 - xi. The Liquefied petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000.
 - xii. Kerosene (Restriction on Use and fixation of Ceiling Price) Order, 1993 with Amendment Order 2015.
 - xiii. Naphtha (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of Use in Automobiles) Order, 2000.
 - xiv. Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of Use in Automobiles) Order, 2000.
 - xv. Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015.
 - xvi. Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2016.
 - xvii. The Bihar Consumer Protection Rules, 1987.
 - xviii. The Cash Transfer of Food Subsidy Rules, 2015.
 - xix. The Food Security (Assistance to State Government) Rules, 2015.
 - xx. Food Security Allowance Rules, 2015.
 - xxi. Doorstep Delivery Scheme, 2016.
 - xxii. The Explosive Act, 1884.
 - xxiii. The Explosive Rules, 2008.
 - xxiv. Decentralised Procurement Scheme.
3. पर्सदीय अधिसूचना संख्या-2/परी0-01(राज0)-11/2017-2931 दिनांक 01.12.2017 में निहित अन्य सभी शर्तें उपरोक्त सेवाओं पर भी लागू होंगी।
4. अधिसूचना पर सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति प्राप्त है।

केन्द्रीय परीक्षा समिति,
राजस्व पर्सद, बिहार के आदेशानुसार
मोहम्मद सलीम,
सचिव, राजस्व पर्सद।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 516-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>